



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 319] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 1977/आषाढ़ 29, 1899

No. 319] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 1977/ASADHA 29, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July 1977

S.O. 573(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 21/33/77-T [S O. 375(E)] dated the 30th May, 1977 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 30th May, 1977, the Central Government hereby appoints, with effect from the 20th July, 1977, Shri Justice Alak Chandra Gupta, Judge, Supreme Court of India, in place of Shri Justice D.S. Mathur (resigned), to constitute the Commission of Inquiry to inquire into the matter specified in the said notification.

[No VI/11021/4/77-Comsec]

MAHESHWAR PRASAD, Addl Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1977

क्र० आ० 573(अ).—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 30 मई, 1977 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की तारीख 30 मई, 1977 की अधिसूचना सं० 21/33/77-टी० [का आ० 375(ई)] में आशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट मामलों की जांच के लिये जांच आयोग के रूप में न्यायमूर्ति श्री डी० एस० माथुर (जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है) के स्थान पर, एतद्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अलक चन्द्र गुप्त को 20 जुलाई, 1977 से नियुक्त करती है ।

[सं० 6/11021/4/77-कोमसेक]

महेश्वर प्रसाद, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977